



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1941 (श10)

(सं० पटना 1340) पटना, वृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर 2019

सं० 6 एस०एस०(11)07/2019-3959

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

18 दिसम्बर 2019

विषय :- नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-F.No.1/3/2016-PR दिनांक 31.01.2019 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए कर्मी अंशदान को 10 (दस) प्रतिशत रखते हुए सरकारी अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) प्रतिशत किया गया है तथा कर्मियों को पेंशन निधि एवं निवेश पैटर्न में चयन का विकल्प प्रदान किया गया है।

2. केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1964, दिनांक 31.08.2005 में राज्य सरकार के वित्त विभागीय संकल्प-वि०(27)पें०को०-10/2019-717, दिनांक 29.07.2019 द्वारा संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, केन्द्र सरकार के समरूप राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01.07.2019 से सरकारी अंशदान की राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मियों के लिए संकल्प संख्या-717, दिनांक 29.07.2019 द्वारा अंगीकृत नयी अंशदायी पेंशन योजना के समरूप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को नियोक्ता (विश्वविद्यालय) अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) प्रतिशत करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

4. दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद विश्वविद्यालय के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन से उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 (दस) प्रतिशत राज्य कर्मी से अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 14 (चौदह) प्रतिशत राशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी।

5. नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय (नियोक्ता) अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा मद संख्या-10 के रूप में सम्मिलित करते हुये दिनांक 10.12.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदान की गई है।

6. यह प्रावधान विश्वविद्यालय के अधीन दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रभावी होगा।

आदेश :- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० एन० विजयलक्ष्मी,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1340-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>